

ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

225. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

श्री वीरेन जे० शाह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के साथ आयातित संयंत्रों के उपयोग की शर्त जुड़ी होती है;

(ख) यदि नहीं, तो देश में गत वर्षों में विश्व बैंक की सहायता से निर्मित अनेक ताप विद्युत परियोजनाओं में स्वदेशी उपकरणों के उपलब्ध होने के बावजूद आयातित उपकरणों के उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) देश में ताप विद्युत क्षेत्र में निर्मित ऐसी ताप विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं, जिनमें पूरी तरह स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त परियोजनाओं में "पावर लोड फैक्टर" की दर भी संतोषजनक है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में सभी परियोजनाओं में स्वदेशी उपकरणों का ही उपयोग करने की नीति अपनायेगी?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के मामले में, इस बात पर सहमति है कि परियोजनाओं हेतु उपकरण बैंक द्वारा प्रकाशित "आई०बी०आर०डी० ऋण तथा आई०डी०ए० क्रेडिट के अन्तर्गत खरीद हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त" के अनुसार प्राप्त किए जाएंगे। उपकरणों की खरीद के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय या स्थानीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली संबंधी प्रक्रियाएं, खरीद पैकेज की मात्रा के अनुसार लागू होती हैं। इसमें स्थानीय बोलौदाताओं को भी शामिल किया जाता है बल्कि वास्तव में स्वदेशी निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के मामले में प्राथमिकता प्रदान की जाती है ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

छठी योजना के बाद से उन विश्व बैंक सहायता प्राप्त ताप विद्युत परियोजनाओं जिनमें केवल स्वदेशी

उपकरण उपयोग किए गए हैं, के नाम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए) इन यूनिटों का संयंत्र भार गुणक संतोषजनक रहा है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता
1.	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश	5 × 200 + 2 × 500 मेगावाट
2.	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी, मध्य प्रदेश	3 × 210 + 3 × 500 मेगावाट
3.	टाटा इलेक्ट्रिक कं० की टुम्बे, बम्बई	2 × 500 मेगावाट
4.	एनटीपीसी की रामगुंडम, आन्ध्र प्रदेश	2 × 500 मेगावाट
5.	फरक्का पावर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी, पश्चिम बंगाल (चल टीजी)	3 × 210 + 2 × 500 मेगावाट
6.	एनटीपीसी की नेशनल कैपिटल टीपीसी, उत्तर प्रदेश	4 × 210 मेगावाट
7.	महागढ़ रा०वि० बोर्ड की चन्द्रपुर टीपीएम, महाराष्ट्र	2 × 500 मेगावाट

Release of Electricity from NTPC's Korba and Vindhyachal Plants to Madhya Pradesh

226. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of POWER be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Korba and Vindhyachal plants of NTPC are not releasing the full quota of electricity to Madhya Pradesh resulting in acute shortage of electricity in the State;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to instruct the NTPC to release full share of 1100 megawatt of electricity to Madhya Pradesh from its Korba and Vindhyachal plants;

(d) if so, by when Government propose to do the same and if not what are the reasons therefor; and

(e) what are the manner in which Government propose to reduce the shortage of electricity in Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (d) During the period April—Oct., 1992, as against total entitlement of 3729.6 MU from Korba and Vindhyachal STPS of NTPC, the actual drawal of M.P. was 4831.8 MU. Thus M.P. has overdrawn 502.2 MU during the above period.

(e) Various measures being taken to reduce the shortage of power in Madhya Pradesh include expediting commissioning of new generating capacity, implementa-

tion of short gestation projects, improving the performance of existing power stations, reduction of T&D losses, implementation of demand management and energy conservation measures and arranging transfer of energy from surplus to deficit areas.

The house then adjourned at Seventeen minutes past eleven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 25th November, 1992.